



## राष्ट्रीय वेबिनार

### कोरोना संकट और परिवर्तनकारी मीडिया : संवाद एवं प्रतिवाद का विमर्श

#### Corona Crisis and Transformative Media: A Discourse of Dialogue and Contestations

दिनांक: 19-20 जून, 2020

#### संदर्भ :

कोरोना महामारी को सदी का वैश्विक संकट कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा. दुनिया अपनी पूरी क्षमता से इस महामारी से दो-दो हाथ कर रही है. अलग-अलग देश अपनी बहुआयामी क्षमताओं से वर्तमान और आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतियाँ तैयार कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान में कोरोना वायरस से उपजे संकट ने सम्पूर्ण मानवता को अपनी सांख्यिक विद्रूपताओं से न केवल रूबरू कराया बल्कि 'नृजाति केन्द्रित-तकनीकी आधारित' विकास के मॉडल की उन सभी खामियों को उजागर किया, जिसके चलते वैश्विक मानवता एवं प्रकृति के बीच द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी एवं दोहन आधारित संस्कृति विकसित हो रही थी. इस प्रतिस्पर्धात्मक एवं हिंस्र संस्कृति ने मनुष्य एवं प्रकृति के नैसर्गिक एवं सह-अस्तित्ववादी सरोकारों का विनाश करते हुए आधुनिक सभ्यता को वर्तमान महामारी तक पहुँचाया है. सम्पूर्ण मानवता इसका प्रतिउत्तर तथाकथित विकास के मॉडल में न देखकर एक बार फिर 'सभ्यता के सरलीकरण' में देख रही है, जहाँ मनुष्य के आदिम एवं मूल ज्ञान विमर्श एवं कौशल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते प्रतीत हो रहे हैं. इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि मानव समाज एक बार फिर प्रकृति से अपने नैसर्गिक अंतर्संबंध को पुनःस्थापित करते हुए अपने आधुनिक ज्ञान-कौशल को लोक जीवन, संस्कृति एवं सहजीविता के साथ पुनर्संरचित करे. निःसंदेह मीडिया; जिसमें उसके सभी प्रकार सम्मिलित है; कोरोना काल में समाज और उसके विभिन्न आयामों के साथ अपनी प्रकृति, विषयवस्तु एवं संदर्भ में सम्पूर्ण मानवता को एक बार फिर दिशा प्रदान कर सकता है.

कोरोना महामारी से उपजे अस्तित्वमूलक एवं ज्ञानमीमांसीय संकट को दूर करने में वैश्विक स्तर पर मीडिया, एक नवाचारी समग्र दृष्टिकोण एवं विकल्प प्रस्तुत कर सकता है. इसके माध्यम से कोरोना और पश्च कोरोना समय में सूचना एवं सम्प्रेषण के बहु-अक्षीय आयामों को मीडिया के परिवर्तनकारी एवं अकादमिक संदर्भों में संवाद और प्रतिवाद के विमर्श की रचना कर मीडिया की सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक हस्तक्षेपकारी भूमिका तलाशते हुए एक समन्वयकारी एवं भागीदारीमूलक स्थानीय प्रारूप की निर्मिति की जा सकेगी.

कोरोना संकट को एक अवसर के रूप में देखने तथा व्यक्तिगत एवं सामाजिक आत्मनिर्भरता के लिए निर्मित लोकतान्त्रिक संस्थाओं एवं उपक्रमों की प्रकार्यात्मक-संरचनाओं में विद्यमान उत्तरदायी अवयवों के पुनर्सृजन एवं पुनःउन्मुखीकरण में मीडिया का यह स्थानीय प्रारूप एक सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. इस क्रम में डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्यप्रदेश का संचार एवं पत्रकारिता विभाग अपने अकादमिक उत्तरदायित्व के तहत में आगामी 19-20 जून 2020 को दो दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कर रहा है.

#### संवाद के मुद्दे :

दो दिवसीय वेबिनार में निम्न मुद्दों एवं विमर्शों को समझे जाने का प्रयास होगा-

- कोरोना संकट, आर्थिक मुद्दे और मीडिया
- कोरोना संकट, सामाजिक मुद्दे और मीडिया



- कोरोना संकट, राजनीति और मीडिया
- कोरोना संकट, प्रवासी मजदूर और मीडिया
- कोरोना संकट, महिलाएं और मीडिया
- कोरोना संकट, शिक्षा और मीडिया
- कोरोना संकट, बच्चे और मीडिया
- कोरोना संकट : एक अवसर के रूप में मीडिया की परिवर्तनकारी भूमिका
- कोरोना संकट, लोकतांत्रिक संस्थाएं और मीडिया
- कोरोना संकट, आत्मनिर्भरता की आकांक्षाएं और मीडिया
- बदलते संदर्भ एवं परिप्रेक्ष्य में मीडिया की अकादमिक एवं सूचना-सम्प्रेषण की भूमिका

### सहभागिता:

- ❖ इस वेबिनार में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शोधार्थी, शिक्षक, मीडिया कर्मी, मीडिया अध्येता सहभागिता कर सकते हैं.
- ❖ वेबिनार का संचालन zoom/google meet के माध्यम से किया जाएगा.
- ❖ प्रतिभागियों को पंजीकरण हेतु ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. प्रतिभागिता निःशुल्क है.
- ❖ सम्मिलित प्रतिभागियों को फीडबैक के उपरान्त ई-प्रमाण-पत्र प्रदान किये जायेंगे.

### संरक्षक

प्रो. राघवेन्द्र पी. तिवारी

कुलपति, डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (मध्य प्रदेश)

### सह-संरक्षक

डॉ. ललित मोहन

विभागाध्यक्ष एवं अधिष्ठाता, कला एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला

### संयोजक

डॉ. विवेक जायसवाल

संचार एवं पत्रकारिता विभाग

### सह-संयोजक

डॉ. आशुतोष

भाषा अध्ययनशाला

डॉ. अलीम अहमद खान

संचार एवं पत्रकारिता विभाग

डॉ. संजय शर्मा

शैक्षिक अध्ययनशाला

### आयोजक

संचार एवं पत्रकारिता विभाग

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

तकनीकी सहयोग- समाजविज्ञान शिक्षण अधिगम केंद्र, डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)